

निविदा फर्म जानकारी

1. निविदादाता/फर्म का नाम : _____
2. निविदादाता/फर्म का पंजीयन
कमांक : _____
3. फर्म का वर्तमान पता : _____

दूरभाष/माबाईल कमांक : _____
ईमेल पता : _____
4. फर्म का स्थायी पता मय : _____

दूरभाष/मोबाईल कमांक : _____

मैं/हमने निम्न कार्यों के सामने प्रत्येक व्यक्ति की दर मय सभी कर एवं अन्य व्यय सहित दरों का अंको में एवं शब्दों में प्रस्तुत कर रहा हूँ/ रहे हैं :-

कमांक	कार्य का नाम	दर अंकों में	दर शब्दों में
1.	कुक	_____	_____
2.	हेल्पर	_____	_____
3.	मसालची	_____	_____

नोट :- प्रत्येक कार्य के लिये व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम न हो ।

मैंने/हमने निविदा फार्म के साथ अर्नेस्ट मनी/घरोहर राशि रु 50,000.00 बैंक ड्राफ्ट
कमांक _____ दिनांक _____ बैंक का नाम _____

संलग्न कर दी है

फर्म की मोहर

फर्म स्वामी के हस्ताक्षर _____

दिनांक _____

वित्तीय निविदा

निविदा दर फार्म

निविदा दर लेबर अनुबन्ध आधार पर खाना बनाने परोसने एवं किचिन की साफ-सफाई आदि (संलग्न मेनू सूची अनुसार)

छात्राये (Girls Hostel) छात्रवास हेतू कमसे कम दो महिलाये होना आवश्यक है।

अधिक तम 100 छात्राये (Girls Hostel) छात्रवास हेतू दर प्रतिमाह:

शब्दों में : रु.-----

अंको में : रु.-----

200 छात्राये (Girls Hostel) छात्रवास हेतू दर प्रतिमाह:

शब्दों में : रु.-----

अंको में : रु.-----

दिनांक :

स्थान :

फार्म स्वामी कें हस्ताक्षर

फार्म की मुद्र / सील

फार्म स्वामी का नाम

वित्तीय निविदा

निविदा दर फार्म

निविदा दर संलग्न मेनू सूची अनुसार

दर प्रति छात्र प्रतिमाह

शब्दों में : रु.-----

अंको में : रु.-----

दिनांक :

स्थान :

फार्म स्वामी के हस्ताक्षर

फार्म की मुद्र / सील

फार्म स्वामी का नाम

स्टेन्डर्ड मील/मेनू पॉइंटस/पोरसन गाईड

मील	आफर इन ए वीक	ऑन डे 1	ऑन डे 2	ऑन डे 3
डिजर्ट/मीठा	03 दिन	चावल की खीर	गुलाब जामुन	सूजी का हलवा / सेमिय खीर
रॉयता	02 दिन	बून्दी का रॉयता	प्याज/हरी सब्जी रॉयता	
अचार	प्रति दिन कॉप्लिमेंटरी			
पापड	01 दिन	रोस्टेड / डीप फाईड		
सलाद	01 दिन	हरी सब्जों सलाद		

स्टेन्डर्ड पोरसन सॉइज स्पेसिफिकेऑन

मेनू ऑइटम	सर्व इन ए वीक	स्टेन्डर्ड सॉइज / पोरसन	मेनू डिस/परिमाण
मीट	01 दिन	100-125 ग्राम (प्रति व्यक्ति)(विना ग्रेवि का)	चिकन/मटनकरी
अण्डा	02 दिन	02 अण्डा (प्रति व्यक्ति)	अण्डे की करी
		02 उभलाहुआअण्डा / अण्डा भुजिया(प्रति व्यक्ति)	उभलाहुआ / अण्डा भुजिया
साम्भर वडा	01 दिन	100 ग्राम 2 नग मेदु वडा 120 एम एलसाम्भर तोल (प्रति व्यक्ति)	
इडिली साम्भर	01 दिन	100 ग्राम 2 नगसुखी इडिली(प्रति व्यक्ति)	
पॉव भाजी	01 दिन	03-04 पॉव (प्रति व्यक्ति)	40 गाम प्रति प्राव
ब्रेड	01 दिन	04-06 स्लाइस (प्रति व्यक्ति)	बडा ब्रेड
वेज कटलेट	01 दिन	02 पीसेस (प्रति व्यक्ति)	50 ग्राम का पीस
पॉव	01 दिन	04 पीसेस (प्रति व्यक्ति)	
पनीर	01 दिन	10-12 क्यूबस (प्रति व्यक्ति)	30-40 ग्राम

स्नेक्स ऑइटम	आफर इन ए वीक	पोरसन सॉइज	वजन का विवरन
समोसा	01 दिन	02 समोसा (प्रति व्यक्ति)	हरी चटनी + टमाटो केचप.
दाल का कचोडी	01 दिन	02 कचोडी(प्रति व्यक्ति)	
वेजटबुल पकोडा	01 दिन	100-125 ग्राम (प्रति व्यक्ति)	हरी चटनी + टमाटो केचप
चाउमिन वेज.	01 दिन	125-150 ग्राम (प्रति व्यक्ति)	टमाटो केचप
पारले/टाइगर बिसकुट	01 दिन	छोटा, पेक @ 5/- (प्रति व्यक्ति)	
आलू बोनडा	01 दिन	02 पीसेस (प्रति व्यक्ति)	80-90 ग्राम (प्रति व्यक्ति) हरी चटनी + टमाटो केचप.
सेन्डविच	01 दिन	02 पीस (प्रति व्यक्ति)	मैड वित 02 इसक्वेर सेपड पीसेस, टमाटो केचप.

अनलिमटेड मील

चावल		प्रति दिन	भरपेट
रोटी		प्रति दिन	भरपेट
दाल		प्रति दिन	भरपेट
सब्जी		मेनुअनसार	भरपेट/पोर्शन गाईड अनुसार
पुरी		मेनुअनसार	भरपेट

दूध उपयोग दर

दुग्ध का उपयोग		उपयोग दर	दूध टाइप	
चाय हेतु	प्रति मील	01 लीटर आन प्रति 15-20 छात्राये	फुल क्रीम दूध अमूल / सॉची	03:01(03 प्रतिशत पानी वित 01 प्रतिशत दूध)
मीठा हेतु	प्रति मील	02 लीटर आन प्रति 15-20 छात्राये	फुल क्रीम दूध	05:01(05 प्रतिशत पानी वित 01 प्रतिशत दूध)

